

2018

। পৰিব কলাখণ্ডক

— ተደግኝነት የፌዴራል ነው፡፡

七

የዕለታዊ የደንብ ማረጋገጫ አስተያየት ተከራክር መለያዎች በፊት በዚህ በኩል ተከተል

印記 6376270460

מִתְבָּרְכָה

አዲስ ቤተሰቦች እና ቤተሰራ ቤተሰቦች

በኢትዮጵያ ትኩስ

三

Page : - 30.05.2022

। କୁଳ ପ୍ରାଚୀନ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ । ସେ ହେଉଥିଲା ଶ୍ରୀ

۱۴۲

ס.ס.	תלכָה שְׁמַעַת								
1	8GF 695118	4FA 995492	3ED 396068	3CG 353327	8CF 590268	3FC 917802	0BV 970345	2AC 266530	8GH 205472
2	8GF 695118	4FA 995492	3ED 396068	3CG 353327	8CF 590268	3FC 917802	0BV 970345	2AC 266530	8GH 205472
3	8GF 695118	4FA 995492	3ED 396068	3CG 353327	8CF 590268	3FC 917802	0BV 970345	2AC 266530	8GH 205472
4	8GF 695118	4FA 995492	3ED 396068	3CG 353327	8CF 590268	3FC 917802	0BV 970345	2AC 266530	8GH 205472
5	8GF 695118	4FA 995492	3ED 396068	3CG 353327	8CF 590268	3FC 917802	0BV 970345	2AC 266530	8GH 205472
6	8GF 695118	4FA 995492	3ED 396068	3CG 353327	8CF 590268	3FC 917802	0BV 970345	2AC 266530	8GH 205472
7	8GF 695118	4FA 995492	3ED 396068	3CG 353327	8CF 590268	3FC 917802	0BV 970345	2AC 266530	8GH 205472
8	8GF 695118	4FA 995492	3ED 396068	3CG 353327	8CF 590268	3FC 917802	0BV 970345	2AC 266530	8GH 205472
9	8GF 695118	4FA 995492	3ED 396068	3CG 353327	8CF 590268	3FC 917802	0BV 970345	2AC 266530	8GH 205472
10	8GF 695118	4FA 995492	3ED 396068	3CG 353327	8CF 590268	3FC 917802	0BV 970345	2AC 266530	8GH 205472

-: ተጋግሩ ከፌ ርዕስ ቤትኩን

11	ይት ይህንና ማካድ ማተሚያ ተከራክር ተቋማ	TEC 629210
12	ይት ይህንና ማካድ ማተሚያ ተከራክር ተቋማ	2LK 287303
13	ይት ይህንና ማካድ ማተሚያ ተከራክር ተቋማ	6DP 662269
14	ይት ይህንና ማካድ ማተሚያ ተከራክር ተቋማ	OFN 808549
15	ይት ይህንና ማካድ ማተሚያ ተከራክር ተቋማ	8AM 334124
16	ይት ይህንና ማካድ ማተሚያ ተከራክር ተቋማ	4HK 470108
17	ይት ይህንና ማካድ ማተሚያ ተከራክር ተቋማ	OEM 896462
18	ይት ይህንና ማካድ ማተሚያ ተከራክር ተቋማ	2SF 478588
19	ይት ይህንና ማካድ ማተሚያ ተከራክር ተቋማ	4PE 406180

skm

✓KMP

三

ପ୍ରାଚୀ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଲାଭାବଳୀ

ମୁଖ୍ୟମି କ୍ଷାଣ୍ଡପ
(ଶତାବ୍ଦୀ ଲୋକ)

right

ପାତ୍ରକାଳ 'ପାତ୍ରକ' ବିଜୟକ ପାତ୍ରକାଳ

‘ԵՐԱՆԵԿ-ԳԵՂԱՔՆԵՐԸ ՀԱՅՈՒԹ

3. ተፈፋሚነት, ተጥቶ ማየት ተዘረዘሩ, የጊዜ ተዘረዘሩ
2. ተፈፋሚነት በዚህተምና ምንም, ተፈፋሚነት ተፈፋሚነት, ተፈፋሚነት

1. የፌዴራል ስለተጨማሪው በኋላ እና-በአጭር የሚከተሉት ማስረጃዎች

中川町 1902-06 中川町 2.6.2022

ପ୍ରକାଶ 'ପ୍ରତିବନ୍ଦି' ଏବଂ ପରିଚାଳକ

‘ԵՐԱԾՈՒՅԹ-ԿՐԵՇՆԵՐ’ ՅԱԿՈՎ

10 1315 181244 24

କୁଳି ପ୍ରବୃତ୍ତି